

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई / Atomic Energy Education Society, Mumbai

टर्म-I/आवधिक परीक्षा-II/अर्धवार्षिक के लिए पाठ्यक्रम

Syllabus for Term-I/ Half Yearly (2025-26)

CLASS / SUBJECT	IX	X
ENGLISH	<p>Communicative</p> <p><u>Literature –</u> <u>Prose-</u> How I Taught My Grandmother to Read A Dog Named Duke The Man Who Knew Too Much</p> <p><u>Poetry -</u> The Brook The Road Not Taken The Solitary Reaper The Seven Ages</p> <p>Drama- Villa for Sale</p> <p><u>MCB –</u> People Adventure Environment The Class IX Radio and Video Show</p> <p><u>WB-</u> Verb Forms, Determiners, Future Time Reference</p> <p><u>Writing –</u> Notice Writing, Informal Letter, Paragraph Writing, Dialogue writing.</p>	<p>Communicative <u>Literature –</u> <u>Prose-</u> Two Gentlemen of Verona Mrs. Packletide's Tiger The Letter</p> <p>Drama-The Dear Departed</p> <p><u>Poetry</u> The Frog and the Nightingale Ozymandias The Rime of the Ancient Mariner Not Marble, Nor the Gilded Monuments MCB Health and Medicine Education Science Environment WB Determiners Tenses Subject-Verb Agreement Non-Finites Relatives Connectors Writing Formal Letter E-mail to school authorities Factual description of a person Articles Based on verbal cues</p>

HINDI	<p><u>क्षितिज भाग-1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • दो बैलों की कथा • ल्हासा की ओर • उपभोक्तावाद की संस्कृति • साखियाँ और सबद • वाख • सवैये • कैदी और कोकिला <p><u>कृतिका भाग-1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • इस जल प्रलय में <p><u>व्याकरण</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • उपसर्ग-प्रत्यय • समास • अलंकार • वाक्य <p><u>लेखन</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • पत्र • अपठित गद्यांश व पद्यांश • अनुच्छेद लेखन • संवाद / सूचना ईमेल / लघुकथा 	<p><u>क्षितिज भाग-2</u></p> <p><u>काव्य खंड-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • पद (सूरदास) • राम - लक्ष्मण- परशुराम संवाद <p><u>गद्यखंड -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • नेताजी का चश्मा • बाल गोबिन भगत • लखनवी अंदाज़ <p><u>कृतिका भाग-2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • माता का अंचल • साना – साना हाथ जोड़ि <p><u>व्याकरण</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • वाक्यभेद, अलंकार, वाच्य, पद परिचय <p><u>लेखन</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • अपठित गद्यांश व पद्यांश • पत्र • अनुच्छेद लेखन • विज्ञापन / संदेश लेखन • ईमेल / स्ववृत्त लेखन
MATHS	<p>Number System. Polynomials. Co-ordinate Geometry. Linear Equation in two Variables. Introduction to Euclid Geometry. Lines and Angles. Triangles.</p>	<p>Real Numbers. Polynomials. Pairs of Linear Equations in two Variables. Quadratic Equations. Arithmetic Progressions. Triangles. Co-ordinate Geometry.</p>

SCIENCE	<p>Matter in our surroundings. Is matter around us pure? The fundamental unit of life. Tissues. Motion. Force and law of Motion</p>	<p>Chemical reactions and equations. Acids, Bases and Salts. Life Processes. Control and Coordination. How do organisms reproduce? Light -Reflection &Refraction. The Human Eye and Colorful World.</p>
SOCIAL SCIENCE	<p><u>History:</u> The French Revolution. <u>Geography:</u> India – Size and Location. Physical Features of India. Drainage. <u>Civics:</u> What Is Democracy? Why Democracy? Constitutional Design. Electoral Politics. <u>Economics:</u> The Story of Village Palampur People as Resource.</p>	<p><u>History:</u> Nationalism in Europe. Nationalism in India. <u>Geography:</u> Resources and development. Forest and wild life resources. Water Resources. Agriculture. <u>Democratic Politics:</u> Power Sharing. Federalism. Gender, Religion and Caste. <u>Economics:</u> Development. Sectors of the Indian Economy.</p>